

27th August, 2025

To The General Manager Department of Corporate Services BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 Scrip Code: 544253	To The General Manager Department of Corporate Services National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 Symbol: KROSS
---	--

ISIN: INE0O6601022

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Publication – Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith the Newspaper advertisement with respect to 34th Annual General Meeting to be held on Tuesday, September 23, 2025 at 11:00 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), published in the Financial Express (English edition) and Utkal Mail (Hindi edition) on August 27, 2025 in compliance with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

For Kross Limited

Debolina Karmakar**Company Secretary and Compliance Officer****Membership No.: ACS 62738****Registered and Corporate Office**

M-4, VI Phase, Gamharia, Adityapur Industrial Area, Jamshedpur - 832108 (India)
Phone - +91 7280026478 Website : www.krosslimited.com



GRAND CONTINENT HOTELS LIMITED
(Formerly Known as Grand Continent Hotels Private Limited)
(Corporate Identity Number: L55101TN2011PLC083100)
Registered Office : S.No.245/1A/1B, Venupuram Village, Veeralapakkam, Thiruporur, Chengalpattu, Mamallapuram, Kanchipuram, Tirukalkundram, Tamil Nadu – 603110, India

Corporate Office : Thirupur No.3, 3rd Main Road, K. R. Garden, Koramangala VI Block, Bangalore South, Bangalore – 560095, Karnataka, India.
Website: www.grandcontinenthotels.com
Email: cs@grandcontinenthotels.com, **Tel:** +91- 8041656491

NOTICE

Notice is hereby given that:

A. ANNUAL GENERAL MEETING: The Notice is hereby given that **14th (Fourteenth) Annual General Meeting ("AGM")** of **Grand Continent Hotels Limited** (Formerly known as Grand Continent Hotels Private Limited) (the Company) is scheduled on **Thursday, September 18, 2025 at 10:00 A.M.** through Video Conference (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business specified. The Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year (FY) 2024-25 has been sent to Members in electronic form to the Email-IDs registered with their Depository Participants (in case of electronic shareholding)/the company's Registrar and share transfer Agent (in case of physical shareholding). For members whose Email IDs are not registered, we request shareholders to update their email ids with the depositories/RTA as soon as possible. The Notice and Annual Report may also be accessed on the website of the company at www.grandcontinenthotels.com and website of National Securities Depository Limited (NSDL) www.evotingindia.nsdl.com and National Stock Exchange (NSE) at www.nseindia.com

B. REMOTE E-VOTING: In compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the rules made there under and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, The Company has offered remote e-voting facility for transacting the business through National Securities Depository Limited (NSDL) to enable the members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the company with NSDL to facilitate e-voting. The details pursuant to the act are as under:

- The e-voting period will commence on **Monday, September 15, 2025, at 9:00 A.M. (IST)** and ends on **Wednesday, September 17, 2025, at 05:00 P.M. (IST)**. Thereafter the e-voting module will be disabled.
- The voting rights of Members shall be in proportion to their share of paid-up capital of the Company as on the cut-off date **Thursday, September 11, 2025**.

Once a vote is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

- Any person who becomes a member of the Company after dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date may write to NSDL on the e-mail ID ie.evoting@nsdl.co.in requesting for the User ID and password. If the member is already registered with NSDL for e-voting, the member can use the existing User ID and Password for casting their vote through Remote e-voting. The detailed procedure pertaining to the User ID and Password is also provided in the Notice of the AGM.

For more information, kindly refer Notice of the meeting available on the company's website and NSDL.

C. BOOK CLOSURE: There being no physical shareholders in the Company, the Register of members and share transfer books of the Company will not be closed. Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories on the Cut-off date i.e. **Thursday, 11th September, 2025** shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting system on the date of the AGM.


D. JOINING THE AGM THROUGH VC / OAVM: Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM, through platform provided by NSDL, at <https://www.evoting.nsdl.com/>. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in Notes to the Notice of AGM.

E. QUERIES: In case of queries with respect to attending AGM & E-Voting, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the website www.evoting.nsdl.com or call on: 022-48867000 or send a request at evoting@nsdl.com. Members may also contact Ms. Aastha Kochar, Company Secretary of the Company at cs@grandcontinenthotels.com

By the Order of Board of Directors
For GRAND CONTINENT HOTELS LIMITED

Sd/-
Aastha Kochar
(Company Secretary & Compliance Officer)

Place : Chennai
Date : 27.08.2025



हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड
HINDUSTAN FLUOROCARBONS LIMITED
(CIN NO.L25206TG1983PLC04037)
Registered Office: 303, Babukhan Estate, Basherbagh, Hyderabad-500 001, Telangana, India. Email: cs@hoclindia.com | Tel. No. 0484-2727342

INFORMATION REGARDING 42nd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERRING (VC)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

- Information is hereby given that 42nd Annual General Meeting ("AGM") of the members of **Hindustan Fluorocarbons Limited ("HFL/Company")** will be held on **Thursday, 25th September, 2025 at 03:30 pm (IST)** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses that will be set forth in the Notice of 42nd AGM, in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 read with rules framed thereunder and various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and by the Securities Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "MCA/SEBI" the circular(s)).
- In compliance with the relevant MCA/SEBI circular(s), the electronic copies of the notice of 42nd AGM and Annual Report for the year 2024-25 will be sent to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s)/RTA. The e-copy of the 42nd Annual Report of the Company for the FY 2024-25 along with the Notice of the AGM, Financial Statements and other Statutory Reports thereon will also be available on the website of the Company at <https://www.hfl.co.in/investors/financial-year-wise-annual-reports> website of the Stock exchange, i.e. BSE Limited, at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- Members will be able to attend the AGM only through VC/OAVM as no provision has been made to attend the AGM in person. The VC/OAVM facility for the members will be provided by National Securities Depository Limited ("NSDL"), to transact the business set out in the Notice Convening the AGM. The requisite details of the same will be provided by the Company in the AGM notice. Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- The Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from **Friday, 19th September, 2025 to Thursday, 25th September, 2025** (both days inclusive). Record date/cut-off date for determining the eligibility of Members to vote through remote e-voting or bye-voting at the AGM is fixed as **Thursday, 18th September, 2025**.
- Since the 42nd AGM is being held through VC/OAVM in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 read with various Circulars, the facility to appoint proxies by the members will not be available.

Manner of registering/updating email addresses

- Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their e-mail addresses are requested to register their email addresses with their respective Depository Participants and members holding shares in physical mode are requested to update their e-mail addresses with the Company's RTA M/s. KFin Technologies Limited at eiward.ris@kfintech.com or premkumar.nair@kfintech.com to receive the copy of AGM notice, the Annual Report 2024-25 and other communications from the company in electronic mode.

Manner of casting votes through e-voting

- The Company will provide the facility to the members for exercising their right to vote by electronic means through remote e-voting and, the facility for e-voting will also be made available during the AGM to those members who could not cast their vote(s) through remote e-voting and are otherwise eligible to vote. The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses with the company or RTA will be provided in the notice of AGM. Instructions for joining the AGM through VC/OAVM will also be provided in the notice of AGM.
- Members are requested to follow the instructions given in the notes to the Notice of AGM which forms part of the Annual Report which will be available on the website of the company <https://www.hfl.co.in/investors/financial-year-wise-annual-reports> and on the website of NSDL i.e. www.evotingindia.com for casting the votes and attending the AGM. Members are requested to carefully read all the notes set out in the notice of AGM, more particularly the instructions for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-voting during AGM.


Important Information

- Members who are yet to submit KYC details are requested to submit the duly filled forms to Company's RTA M/s. KFin Technologies Limited at the earliest. Relevant forms can be accessed at https://www.hfl.co.in/sites/default/files/investors/information_to_shareholders_holdin_g_shares_in_physical_form.pdf#view=action=download.

By the Order of Board of Directors
For HINDUSTAN FLUOROCARBONS LIMITED

Sd/-
Subramanian H
Company Secretary
(ACS 28380)

Place: Hyderabad, Telangana
Date: 26.08.2025



INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
CIN : U91101MH1928GAP001391
Tel.: +91-8069260700 E-Mail: admin@iibf.org.in

NOTICE is hereby given that the 98th Annual General Meeting ("AGM") of the Institute will be held on **Thursday, 18th September, 2025 at 11.30 AM IST** through **Two-Way Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Mode ("OAVM")** Only-to transact the Business, as set out in the Notice for the 98th AGM. The AGM will be held through VC/OAVM without the physical presence of the members at a common venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed there under read with Circulars dated April 8th, 2020, April 13th, 2020, December 31st, 2020, January 12th, 2021, May 5th, 2022, December 28th, 2022, September 25th, 2023 and September 19th, 2024 respectively issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA/Circulars"). The registered office of the Institute shall be deemed to be the venue for the meeting.

In compliance with the aforesaid circulars, the Annual Report of the Company for 2024-25 along with the Notice of the AGM has been dispatched by e-mail to all the members, whose e-mail addresses are available and registered with the Institute, on **25th August, 2025**. The requirement for sending the physical copy of the 98th AGM Notice and Annual Report to members has been dispensed vide MCA Circulars. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM. A copy of the Notice of the AGM along with the Annual Report is available on the website of the Institute at <https://www.iibf.org.in/AnnualReport.asp> and website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com>.

Remote E-Voting and E-Voting at the AGM

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system ("remote e-voting"), provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and the business may be transacted through such voting. The details for the e-voting pursuant to the Act and the Rules are hereunder:

- The Ordinary Business and Special Business as set out in the AGM may be transacted through voting by electronic means. The Notice for AGM along with e-voting instructions is available along with the Annual Report on the website of the Institute at <https://www.iibf.org.in/AnnualReport.asp> and website of NSDL <https://www.evoting.nsdl.com>.
- Institutional members are required to send a scanned copy (PDF/JPG Format) of its Board or Governing Body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to attend the AGM through VC / OAVM on its behalf and to vote through remote e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through its registered email address to scrutiniser@csdakamati.com with a copy marked to evoting@nsdl.com.
- The remote e-voting period commences on **Saturday, 13th September 2025 (9.00 AM IST) and ends on Wednesday, 17th September 2025 (5:00 PM IST)** (both days inclusive). During this period, the Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter and remote e-voting will not be permitted beyond the prescribed time.
- The cut-off date for determining the eligibility status of members for voting through remote e-voting and at the AGM is **1st September, 2025**.
- Further, in pursuance to the Articles of Association, only Institutional Members, Associate Members and Fellow Members will be authorized to vote through e-voting at the AGM. Associate and Fellow Members shall be entitled to vote one per person and Institutional Members shall be entitled to vote one for every Rs. 1,000/- in contribution towards their Annual Subscription Fees as on the cut-off date. Any person, who is an Institutional, Associate or Fellow Member of the Institute as on the cut-off date is eligible to caste vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM (**only through E-voting system**). Other members may please treat this Notice for information purpose only.
- The facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be allowed to cast their vote again at the AGM.
- A person who has become a member of the Institute after the dispatch of notice of AGM and having right to vote as of cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.
- Those members whose email address are not registered with the Institute may register their email address with Institute by sending email to **Mr. Dharmvir Marchino, Deputy Director on dd.mss@iibf.org.in**.
- For details relating to remote e-voting and E-Voting at AGM, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact at **Mr. Sanjeev Yadav, Senior Manager, NSDL, 3rd floor, Naman Chambers, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051. Email: evoting@nsdl.com / Tel: 022-48867000. Members may also write to **Mr. Dharmvir Marchino, Deputy Director on dd.mss@iibf.org.in**.**

The Notes to the AGM Notice contain the detailed instructions for manner of attendance and e-voting at the AGM for all Voting and Non-voting members. Members are requested to refer to the same for attending the AGM.

By Indian Institute of Banking and Finance

Biswa Ketan Das
Chief Executive Officer
DIN: 08067282

Place: Mumbai
Date: 26.08.2025



CINEVISTA LIMITED
L i m i t e d

Regd. Office: 1, Silver Croft, Off. T.P.S. III, Corner of 16th and 33rd Road, Bandra West, Mumbai – 400050 Phone: 022 62516537 CIN: L26130MH1997PLC107871
Website: www.cinevistaas.com Email id: helpdesk@cinevistaas.com

NOTICE

1. NOTICE is hereby given that the Twenty Eighth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Cinevista Limited ("The Company") will be held on Wednesday, September 24, 2025 at 11.00 a.m. IST, through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility provided by National Securities Depositories Limited ("NSDL") without the physical presence of the shareholders at the common venue, in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest one being Circular No. 09/2024 dated 19th September 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/PCIR/2024/133 dated 3rd October 2024 issued by SEBI (collectively referred to as "Circulars"), to transact the business as set out in the Notice convening AGM. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

2. In compliance with the Act, the Rules made thereunder and the above Circulars, electronic copies of the Notice of AGM and the Annual Report 2024-25 is sent to those shareholders whose email addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agents / Depository Participants). The Annual Report for the financial year 2024-25 including the Notice of AGM shall also be made available on the Company's website at www.cinevistaas.com, websites of Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com / www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at <https://www.evoting.nsdl.com>.

3. Book Closure: The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 17th September, 2025 to Wednesday, 24th September, 2025 (both days inclusive).

4. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the Members with the facility to cast their votes electronically ("remote e-voting") as well as e-voting at AGM through e-voting services of NSDL in respect of all the businesses to be transacted at the AGM. The detailed procedure for attending and voting at the AGM through VC/OAVM alongwith detailed instructions for USER ID & password required for remote e-voting / e-voting at the AGM have been provided in the AGM Notice.

5. The remote e-voting period commences at 09:00 a.m. (IST) on Friday, September 19, 2025 and ends on 5:00 p.m. (IST) on Tuesday, September 23, 2025. During this period, Members can select EVEN 135746 to cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The voting right of the Members shall be in proportion to their share in the paidup equity share capital of the Company as on Wednesday, September 17, 2025 ("cut-off date").

6. Any person, whose name appears in the register of Members / Beneficial owners as on the cut-off date i.e. September 17, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password by sending a request at www.evoting.nsdl.com.


7. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. The facility for voting shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of www.evoting.nsdl.com, or contact NSDL at the following toll free no.: 022 - 48667000.

By order of the Board
For Cinevista Limited

Sd/-
Kilpa Goradia
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 26th August, 2025



KROSS LIMITED
Corporate Identity Number: L29100JH1991PLC004465
Registered Office: M4, Phase 6, Adityapur, Industrial Area, Gambaria, Jamshedpur, Jharkhand - 832108.
Mob.: 7280026478; **Website:** www.krosslimited.com
E-mail: cs@krossindia.com;

NOTICE OF 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, AND E-VOTING INFORMATION

1. In compliance with General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 02/2022 dated May 05, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/PCIR/2024/133 dated October 3, 2024 and other applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circulars), has allowed the Companies to conduct the AGM through VC or OAVM on or before September 30, 2025. In accordance with the said circulars of MCA, SEBI and applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR), the 34th AGM of the Company shall be conducted through VC/OAVM on **Tuesday September 23, 2025 at 11:00A.M. (IST)**, to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the notice of the AGM along with Annual Report for the Financial Year 2024-25 have already been emailed to all the shareholders whose email addresses were registered with the Depository Participants. The e-mailing of all notices along with Annual Report has been completed on **Tuesday, August 26, 2025**. Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (LODR), the Company is also sending a letter to shareholders, whose e-mail IDs are not registered with Company/RTA/DP providing the web link of Company's website from where the Annual Report of the Company for FY 2024-25 can be accessed.


E-voting Information: In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and relevant provisions of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the remote e-voting facility to cast their vote electronically on the resolutions mentioned in the AGM Notice using the electronic voting platform provided by National Securities Depository Limited ("NSDL"). The facility of electronic voting shall also be made available during the meeting on the day of the AGM for those members who have not cast their vote by remote e-voting. The Board has appointed Mr. Sital Prasad Swain, Practicing Company Secretary, as scrutintizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner. The members may note the following:

- The Ordinary and Special Businesses as set out in the AGM Notice may be transacted through voting by electronic means
- Members holding shares in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. **Tuesday, September 16, 2025** may cast their vote electronically on businesses as set out in notice through such remote e-voting
- Any person, who acquires shares and become a member of the Company after sending the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 16, 2025 may obtain the login ID and password by sending an email to evoting@nsdl.com by mentioning his/her Folio Number/DP ID and Client ID Number. However, if you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
- The remote e-voting period commences on **Saturday, September 20, 2025 at 09:00 a.m. and ends on Monday, September 22, 2025 at 05:00 p.m.** The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time
- The facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM and the member participating in AGM through VC/OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right in the meeting.
- The member who has cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.
- Any person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depository as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the meeting
- Detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM are provided in the AGM Notice.
- Members may note that the notice of the 34th Annual General Meeting and the Annual Report for FY2024-25 are also available at the Company's website www.krosslimited.com, website of NSDL www.evoting.nsdl.com as well as on the website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and can be made available for inspection by writing to the Company at investors@krossindia.com.
- In case of any queries/grievances connected with e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs) for shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com. Members may also contact Ms. Debolina Karmakar, Company Secretary and Compliance Officer, for any grievances connected with voting by electronic means at the Corporate Office of the Company at Tel. 7280026478 or e-mail: investors@krossindia.com.

For Kross Limited
Sd/-
Debolina Karmakar
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: ACS62738

Date: 26.08.2025
Place: Jamshedpur

THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.



ABRIL PAPER TECH LIMITED
CORPORATE IDENTITY NUMBER: U17015GJ2023PLC146314

Our Company was originally formed as a partnership firm under the name 'M/s Abril International' ("Partnership Firm") pursuant to a deed of partnership dated January 01, 2019 under the Indian Partnership Act, 1932 ("Partnership Act"), and a Certificate of Registration bearing number GUJSR205170 was issued by Registrar of Firms. The partnership firm was thereafter converted from 'M/s Abril International' into Private Limited Company under Section 366 Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as 'Abril Paper Tech Private Limited' under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation dated November 17, 2023 issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently our company converted into public limited Company, pursuant to a special resolution passed by the shareholders of our company at the Extra-Ordinary General Meeting held on July 29, 2024 and consequently the name of our Company was changed to 'Abril Paper Tech Limited' and a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre dated September 17, 2024. The Corporate Identification Number of our Company is U17015GJ2023PLC146314. For further details, please refer the chapter titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page no.111 of the Prospectus.

Registered Office: 238/3, Shiva Ind. Estate, Jolva, Ta. Palsana, District Surat, Gujarat, India – 394305
Tel No.: 0261-2990124; **Website:** www.abrilpapertech.com; **E-Mail:** info@abrilpapertech.com
Contact Person: Daxa Boghara, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS: VIPUL DOBARIYA, ASHVINBHAI LATHIYA AND PRINCE LATHIYA

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 22,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH OF ABRIL PAPER TECH LIMITED ("APTL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 61 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 51 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1342.00 LACS ("THE ISSUE"), OF WHICH 1,12,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 61 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 51 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 68.32 LACS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e., NET ISSUE OF 20,88,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT A PRICE OF ₹ 61 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1273.68 LACS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.56% AND 26.16% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

ALLOCATION OF THE ISSUE	
INDIVIDUAL INVESTORS PORTION WHO APPLIES FOR MINIMUM APPLICATION SIZE	10,44,000 EQUITY SHARES
OTHER INVESTOR PORTION (OTHER THAN INDIVIDUAL INVESTORS WHO APPLIES FOR MINIMUM APPLICATION SIZE)	10,44,000 EQUITY SHARES
MARKET MAKER PORTION	1,12,000 EQUITY SHARES

FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO 184 OF THE PROSPECTUS.

THIS ISSUE IS BEING MADE THROUGH FIXED PRICE PROCESS IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS") AND ALLOCATION IN THE NET ISSUE TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253 OF THE SEBI ICDR REGULATIONS. THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BOMBAY STOCK EXCHANGE OF INDIA, BSE LIMITED ("BSE") i.e. BSE SME. BOMBAY STOCK EXCHANGE SHALL BE THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE.

FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "ISSUE PROCEDURE" BEGINNING ON PAGE 194 OF THE PROSPECTUS. A COPY OF PROSPECTUS HAS BEEN DELIVERED FOR REGISTRATION TO THE REGISTRAR OF COMPANIES, AHMEDABAD AS REQUIRED UNDER SUB-SECTION 4 OF SECTION 26 OF THE COMPANIES ACT, 2013.

ATTENTION INVESTORS-CORRIGENDUM

This communication should be read along with the Prospectus dated August 20, 2025 and Pre-Issue Advertisement dated August 26, 2025.




Clarification on the Minimum Application Size:

We respectfully wish to clarify that the regarding the **Minimum Application Size** or disclosures made by our Company in its Prospectus and IPO proposal.

We should read the Minimum Application Size for QIB and NIL as below:

Minimum Application Size	For QIB and NIL (other than individual investors who applies for minimum application size):	For Individuals investors who applies for minimum application size:
	Such number of Equity Shares in multiples of 2,000 Equity Shares such that the Application Value exceeds ₹ 2,00,000 and more than Two (2) Lots.	Up to 1,12,000 Equity Shares
	For Individuals investors who applies for minimum application size:	
	Such number of equity shares where application size shall be two lots per application and application size shall be above ₹2 lakhs, is of at least 4,000 Equity Shares.	

The Prospectus / the issue related documents / advertisements / forms shall be read in conjunction with this Corrigendum. The information in this Corrigendum shall supersede the information in the Prospectus to the extent inconsistent with the information in the Prospectus

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 <p>INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES LIMITED Address: Office No. 508, Fifth Floor, Priviera, Nehru Nagar, Ahmedabad – 380015, Gujarat, India Tel No.: 079 49088019 (M) +91-9898055647 Web Site: www.ifinservices.in Email: mbd@ifinservices.in Investor Grievance Email: info@ifinservices.in Contact Person: Pradip Sandhir SEBI Reg. No.: INM000012856</p>	 <p>KFIN TECHNOLOGIES LIMITED Address: Selenium Tower-B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad Rangareddi TG 500032. Tel No.: +91-40-67162222/18003094001 Website: www.kfintech.com E-Mail: ajai.ipoo@kfintech.com Investor Grievance Email: eiward.ris@kfintech.com Contact Person: Mr. M Murali Krishna SEBI Reg. No.: INR000000221</p>	 <p>ABRIL PAPER TECH LIMITED Ms. Daxa Boghara Company Secretary and Compliance Officer 238/3, Shiva Ind. Estate, Jolva, Ta. Palsana, District Surat, Gujarat, India – 394305 Telephone: 0261-2990124 E-mail: info@abrilpapertech.com Website: www.abrilpapertech.com Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRML or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.</p>

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus.

For Abril Paper Tech Limited
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Vipul Dobariya
(Managing Director)

Place: Surat
Date: August 26, 2025

Disclaimer: ABRIL PAPER TECH LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Prospectus on August 20, 2025 with the Registrar of Companies, Ahmedabad and thereafter with SEBI and Stock Exchanges. The Prospectus is available on the website of BSE at www.bseindia.com, website of the Lead Manager at

एक नजर

जन शिकायत में
प्राप्त आवेदनों पर
समयबद्ध कार्रवाई
हेतु पदाधिकारियों
को निर्देश

जमशेदपुर : समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जन शिकायत निवारण दिवस में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आए नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएँ सुनी। इस दौरान प्राप्त आवेदनों में राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएँ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, निजी विद्यालयों में बीपीएल कोटा से नामांकन, अनुकंपा पर पीडीएस दुकान का अनुज्ञाति निर्माण करने, आँगनवाड़ी केंद्र निर्माण, लॉबित न्यूट्रेन, दुकान आवंटन, खाता फ्रीज होने से पेंशन एवं राशन निष्काशन में समस्या, जाति प्रमाण पत्र, भूमि दखल एवं विवाद, दिव्यांग एवं वृद्धा पेंशन से संबंधित मामले, भू-माफिया की शिकायतें, मुख्यमंत्री हर्षावर्मा सम्मान योजना का लाभ, लंबित भुगतान, सोसाइटी पार्किंग विवाद, मकान निर्माण से जुड़े पड़ोसियों के विवाद, स्प्रेट्स आम्स लाइसेंस, आवस, ऋण, सड़क मरम्मतकारण, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ एवं भूमि पर अवैध कब्जे सहित जनहित से संबंधित मांग पत्र एवं जापन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने आश्चर्यतः किया कि प्रत्येक आवेदन का नियमासुरार समयबद्ध निष्पादन किया जाएगा। कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया गया। उपायुक्त ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

80 वर्षीया महिला को टीएवीआई प्रक्रिया से नई जिंदगी मिली

रबी : बीएम बिड़ला हार्ट होस्पिटल, कोलकाता में टीपीवाईआई के प्रमुख डॉ. जाँच शीम के नेतृत्व में चिकित्सकों की एक टीम द्वारा किये गए सफल चिकित्सीय प्रयास से एक उच्च-जोखिम वाले वाल्व-इन-वाल्व टीपीवाईआई ने एक 80 वर्षीय महिला का वायस जीवनदान दिया। जी। 10 80 वर्षीय महिला के जीवन में उनके पुत्रने मोडिकल इतिहास ने बड़ा सुसा दिया। वर्ष 2013 में बेंगलुरु में उनका महाधमनी वाल्व रिफ्लेक्स सेट सर्जरी बायोप्रोस्थेटिक (उत्कत) वाल्व से हुई थी। समय के साथ यह वाल्व कमजोर होकर खराब हो गया, जिससे उनका हृदय विफलता की स्थिति में पहुँच गया। इस उम्र में दोबारा आपन-हार्ट सर्जरी जोखिम भरी थी, इसलिए बीएम बिड़ला हार्ट होस्पिटल के चिकित्सकों ने उन्हें न्यूनतम इनवेसिव तकनीक **ह्रस्वटीपीवाईआई** (ट्रांसकेथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन) **ह्रस्व** की सलाह दी। यह ह्रस्ववाल्-इन-वाल्वबद्ध प्रक्रिया खराब हो रहे उत्कत वाल्व के अंदर नया वाल्व लगाने की सुविधा देती है। हालाँकि, इस प्रक्रिया में कई जटिल तकनीकी चुनौतियाँ सामने आईं। उनका पुराना सर्जिकल वाल्व छोट था, जिसे तोड़ बिना नया वाल्व प्रिंट नहीं हो सकता था। पैरों की धमनियों में गंभीर रोग था दाहिनी धमनी पूरी तरह अनुपयोगी और बाईं तंग व टेढ़ी थी। कोरोनरी धमनियों की चिकी और थी, जिससे नए वाल्व द्वारा उनके अरुद्ध होने का खराबा था। ऐसे में हर कदम पहले से सोच-समझकर उठाना आवश्यक था। कैथेटर में डॉक्टरों ने सावधानीपूर्वक रणनीति बनाई। विशेष तौर से कोरोनरी धमनियों को सुरक्षित किया गया, सर्जिकल रिंग को जानबूझकर फ्रेक्चर कर उचित आकार का ट्रांसकेथेटर वाल्व सफलतापूर्वक लगाया गया। नया वाल्व सही ढंग से बैठ गया और रक्त प्रवाह सामान्य हुआ। शुरुआत में नाजूक हालात में रहते हुए हालात की सेहत धीरे-धीरे सुधरी। डायलिसिस बंद हुआ-गुर्दे और लिवर की कार्यक्षमता सामान्य हुई और हृदय की पंपिंग क्षमता बहाल हो गई। अब 80 वर्ष की उम्र में वह प्रिंट से चल-रिफ पा रही हैं और स्वस्थ जीवन जी रही हैं।

आदि कर्मयोगी अभियान के सफल संचालन हेतु आयोजित कार्यशाला में ग्राम स्तर पर समाधान आधारित पहल

**सिदगोड़ा टाउन हॉल
में 28 से 30 अगस्त
तक होगा ब्लॉक
स्तरीय कार्यशाला**

उत्कल मेल संवाददाता
जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निदेशानुसार जिले में ग्रामीण विकास और सामुदायिक भागीदारी को नई दिशा देने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान की अध्यक्षता में आहूत बैठक सह-कार्यार्थी जिला कल्याण, समाज कल्याण, शिक्षा,

डीसी ने ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण

जमरुद्धर : कोटाडीह स्थित श्रीवैद्य वेङ्कटराऊ का निर्माण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह आयुक्त कर्ण सत्याश्री ने किया। निर्माण के दौरान ईवीएम और वोलेट मशीनों के सुरक्षित रखरखाव, सुरक्षाप्रबंध, सीसीटीवी निगरानी और मार्कोट संघाणन की स्थिति का विस्तार से सैमांन की गई। आयुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि निवचन आचार द्वाग जारी रहे भी मासिक प्रचलन प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वेङ्कटराऊ की सुझा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता वा असावधानी नहीं बर्ता जाए, सीसीटीवी कैमरों की 24 गुण 7 कार्यशीलता, रिमोटों का समबद्ध करके असंघाण तथा उसकी नियमित जांच अनिवार्य है। वेङ्कटराऊ में सैमांन प्रणाली रजिस्टर एवं लोकक क संघाण की प्रक्रिया पारदर्शी और अद्यतन रूप में हो। किसी भी परिस्थिति में अन्धकृत प्रवेश हुतः वर्जित रहे। आयुक्त ने सुझा व्यवस्था की निबन्धन ऑडिट, रिपोर्टि प्रक्रिया की समबद्ध समीक्षा तथा पारजुशी सुनिश्चित करने हेतु उच्च स्तरीय निगरानी तंत्र को मुद्वद करके प बल दिया। इस दौरान गणिचन राजनीति दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

सरयू राय के विस में उठाये गये जनहित से जुड़े तीन मुद्दे पर सरकार ने दिया जवाब

कदमा कंवेन्शन सेंटर में कई त्रुटियों के कारण जेएनएसी ने भवन हस्तांतरित नहीं किया



उत्कल मेल संवाददाता

जमशेदपुर : झारखण्ड विधानसभा में
अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से
जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू
राय ने जमशेदपुर के कदमा में कैंवेंशन
सेंटर, सोनारी दोमुहानी के पास पार्क

और साकची डॉ.एम. लाईब्रेरी का
 विषय उठाया था, जिसका लिखित
 उत्तर नगर विकास एवं आवास विभाग
 ने दिया। हो-हल्ला-हंगामा के कारण
 सदन स्थिति हो जाने से इस पर वाद-
 विवाद नहीं हो सका। सरकार ने बताया
 कि कदमा कंवेशन सेंटर में कई बुटियां
 होने के कारण जमशेदपुर अस्थिचूचित
 क्षेत्र समिति ने भवन का हस्तांतरण
 नहीं किया। इस भवन को काम लायक
 बनाने के लिए जुड़कों द्वारा प्रस्ताव
 तैयार किया जा रहा है। साकची डॉ.एम.
 लाईब्रेरी का लाईब्रेरी भवन के प्रथम एवं
 द्वितीय तल में निर्माण कराने के लिए
 प्राक्कलन एवं कार्य योजना बनाई जा
 रही है। सश्रम प्राधिकार से तकनीकी
 स्वीकृति के उपरान्त निविदा के माध्यम
 से बन्दोबीस्त की प्रक्रिया पूरी की
 जायेगी। सरकार की तरफ से बताया
 गया कि साकची दोमुहानी पार्क में

आवश्यक संयंत्रों एवं उपकरणों की उपलब्धता नहीं होने के कारण इसमें संचालित नहीं किया जा सका है। इसके बाद भीतर इन कमियों को दूर करके पार्क को जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध कर दिया जाएगा। पश्चिम की कंडिका-2 के उत्तर में भी सरकार ने इसी बात को दोहराया है। आज ही एक एक अथवा अपसृष्टि प्रश्न के माध्यम से श्री राय ने मानगों पेयजलापूर्ति परियोजना को सुष्ट एवं विस्तारित करने का मामला उठाया। इसके उत्तर में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने कहा कि मानगों शहरी जलापूर्ति योजना नगरपालिका विकास एवं आवास विभाग द्वारा समर्पोषित एवं स्वीकृत है। विभाग द्वारा मात्र उक्त योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बालीगुमा में जलमीनी निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है परन्तु एनएचआई से सीडब्ल्यूआरएम पाईपलाइन

लाईन विद्युन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
विलम्ब से प्राप्त होने (पंवांक 572,
दिनांक 24.04.62.2025) के कारण
कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। योजना का
कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण है तथा शेष कार्य
प्रगति पर है। यह भी बताया गया कि
विभाग द्वारा इन्टरवेल में 375 एचपीपी
श्रमता का 11 अदद तथा वॉटर ट्रीटमेंट में
प्लान्ट में 150 एचपीपी श्रमता का दो अदद
कुल 03 अदद पुराने जर्जर मोटर पम्प
के स्थान पर नये मोटर पम्प लगाने की
स्वीकृति दी जा चुकी है (स्वीकृत्यादेश
सं.- 36 (स्वी.), दिनांक
03.03.2025), जिसका कार्य
सितम्बर, 2025 तक पूर्ण किया जा
सकेगा। शेष जोन- 1, जोन-2, जोन-
3 एवं जोन-5 में पुराने जर्जर
अंदरूनी पम्प सेटों का बदलने तथा
संरक्षणी पम्प हाउस का प्रस्ताव
स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

विधायक सरयू राय के कार्यकाल से ही टाटा स्टील यूआईएसएल कर पानी कनेक्शन के लिए सात हजार रुपये से ज्यादा हरगिज न दें बस्तीवा



जयप्रियवर्तुः जन्ता दल (यूनाइटेड) के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित पेयजल के आपूर्ति के बारे में फैलाया जा रहा प्रश्न श्री श्रीवास्तव ने कहा कि इन वारिस्तों में अधिकारशक्ति प्राप्त है। स्टील यूआईएसएल द्वारा पेयजल आपूर्ति हो रही है। रहते हुए सरस राज्य ने टीएसयूआईएल से सुनिश्चित कर पेयजल की आपूर्ति होती रहेगी। सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि कल दिया था और अन्य वारिस्तों में भी पेयजल कनेक्शन हस्तश्रेष कर पेयजल कनेक्शन बहाल कराया और टीएसयूआईएल को ऐसी परिस्थिति में जब पेयजल कनेक्शन का फार्म मिलता। ऐसी परिस्थिति में जब पेयजल कनेक्शन के अनुमति वारिस्तों को स्वेचपेयजल मिलेगा। श्री श्रीवास्तव के अनुसार है कि पेयजल कनेक्शन का फार्म सभी को उपलब्ध नहीं है। उन नहीं आ सकते, उन तक भी पेयजल कनेक्शन फार्म प्राप्त न हो सकते के लिए 15 से 20 हजार रुपये का प्रावजन बजालत में 7 हजार रुपये से अधिक कनेक्शन चार्ज नहीं है। को पानी-बिजली देना सुनिश्चित करने के लिए तैयार है।

की सूचना पर श्री राय ने हस्तक्षेप कर कनेक्शन देना भी चालू करें। ऐसी घातक जमशेदपुर पूर्वी की इन बस्तियों को स्वयंसेवकों के अधिकारियों से कहा है कि पेयजल बस्ती के सामुदायिक भवन नहीं आसानी से मिल रही है कि पेयजल कनेक्शन देने के लिए। हुए कहा कि किसी भी हालत में 7 हजार (अब टीएसवूआईएल) को पानी-बि

जमशेदपुर में पुलिस प्रशासन की मनमानी के खिलाफ आजसू ने डीसी को साँपा ज्ञापन, सासंद भी रहे मौजूद

यातायात पुलिस अपने वाहनो की जांच कर उनके कागजात कब सही करेंगी : रामचन्द्र सहिस



उत्कल मेल संवाददाता

जमशेदपुर : आजसू पार्टी ने सामवाड़ा को पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह के नेतृत्व में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए पुलिस प्रशासन पर आम जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया। ज्ञापन में कहा गया कि शहर में आए दिन नए-नए नियम लागू कर आमजन को जांच के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले दशकों से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की गाड़ियों से पार्टी झंडा उतारकर

जुमाना वसूला जा रहा है और जब वरीय अधिकारियों से पूछा जाता है तो उच्च न्यायालय का हवाला दिया जाता है। ज्ञापन में अप्रेश लगाया गया कि वाहन-से से बंदा, काला शीशा और प्रेशर हार्न दबाने के नाम पर पुलिस अनाधिकार बंदा करती है और उन प्रभावकों से गलत व्यवहार तक किया जाता है, जबकि ओटो चालकों को नियम पालन के लिए समर्थ दिया जाता है। यदि निरुपस्थिति को गाड़ियों पर बंदा या बोर्ड प्रभावित है तो निजी बंदा और पुलिसकर्मियों के परिवार द्वारा उपयोग

किए जा रहे विशेष बोर्ड व कले शीशों पर भी कल लगनी चाहिए। आजसू ने यह भी कले क साधारण नाजसू के वाहनो का बीमा या प्रदुषण प्रमाणपत्र एकदिन भी समाप्त होने पर तुरंत चालाक जाता जाता है, जबकि क गुलिसकर्मियों के वाहन वर्षों से बिना बीमा और प्रदुषण प्रमाणपत्र के चल रहे हैं। कई वाहनो की अवधि समाप्त हो चुकी है और वे कले शीशे के साथ सड़कों पर दौड़े रहे हैं। चोरी के नाम पर जल्द वाहनो का उपयोग पुलिस द्वारा किया जा रहा है, जिससे राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। ज्ञापन में आगे कहा गया कि शहर में छोटे दुकानदारों के ग्राहक अगर सड़क किनारे वाहन खड़ा कर सामान खरीदते हैं तो उन पर जुमाना लगाया जाता है, लेकिन बड़े रसुखदारों के प्रतिष्ठानों, जैसे पीएम ऑफिस के सामने, आधी सड़क घेरकर पॉलिंग की जाती है और गुलिससूकदमक बनी रहती है। आजसू ने शहर की जर्जर सड़कों की परम्मत की भी मांग की, जिसमें टाटानगर रेलवे स्टेशन से बामबेड़ा, टाटानगर बाहरी गेट से कर्नडीह चेक, बामाईंस स्टार टॉकीज

से केरला पाईल क स्कूल तथा बामापीईस गृहद्वारा जाने वाली सदकों का उल्लेख किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं पार्टी के केंद्रीय प्रध्ता महासचिव रामचंद्र सहिस ने कहा कि जितनी तत्परता पुलिस राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिख्ता रही है, उतनी ही तत्परता अपने ही विपक्ष के वर्गों की धैर्यता सुनिश्चित करने में नहीं दिख्ता। पार्टी जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर कई बरा मुख्मंत्रि और उपायुक्त को पत्र भेजा गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो ने भी आंदोलन में सहभाग का आश्वासन दिया है। आजसु पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अदालत में जनहित याचिका (चस्) दायर की जाएगी। ज्ञापन देने में सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस, जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह, अप्पु तिवारी, ललन झा, मंगल टुडू, चन्द्रेश्वर पांडेय, विमल मौर्य, मर्द शुक्ला, अमित महतो, धनेश कर्मकार, मनोज महतो, ललित सिंह, प्रयोग प्रसाद, मुन्ना भाई, राहुल दास समेत अन्य मौजूद थे।

विभिन्न सेवाएँ और योजनाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इस अभियान का लक्ष्य गाँवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इसके लिए योजना को तीन चरणों में विभाजित किया गया है। आदि ससंयोगी (शिक्षक, डॉक्टर और अन्य पेशेवर मार्गदर्शन देंगे), आदि साथी (स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल, बुजुर्ग, युवा और जनप्रतिनिधि कार्यान्वयन में सहयोग करेंगे), कर्मयोगी (स्थानीय समुदाय के सक्रिय कार्यकर्ता)। कार्यशाला के बाद उप विकास आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जिला सरीया मास्टर देन अन्वुखीकरण कार्यशाला के बाद अब ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला 28-30

नेत्र रोगियों के विदाई के साथ 781वां शिविर का समापन

जयप्रियः भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम, राय मनाहर लोहिया सेवा संस्थान द्वारा प्रेषित देवी चिन्मलाल भालांटिया फिलिपो टूरट, राजस्थान सेवा सदन तथा जिला प्राथमिक स्वास्थ्य समिति के सहयोग से आयोजित 781वां नेत्र शिविर का समापन आज नेत्र रोगियों के विवादों का साध हो गया। गो प्रेमी समाजसेवी एच रेडक्रॉस के पेटून सदस्य राजकुमार अवाल के संयोजन में आयोजित नेत्र शिविर के तीसरे व अंतिम दिन आज नेत्र चिकित्सक डॉ इंदर अहिर ने एक सत्रके रोगी चिकित्सा टीम ने नेत्र रोगियों के आंखों को पट्टी खोलकर अंतिम जांच किया तथा रेड क्रॉस के मानद सचिव विजय कुमार सिंह ने नेत्र रोगियों को चश्मा पहनावा व दवा प्रदान किया। इस अवसर पर समाजसेवी योगेश मिश्र, अशोक कुमार घोषाल, अशोक कुमार सिंह सहित रेड क्रॉस के अनेक को कार्यकर्ता उपस्थित थे। रेड क्रॉस कार्यकर्ता श्याम कुमार सिंह ने नेत्र रोगियों को आंखों की देखभाल के संबंध में जानकारी प्रदान किया। विवादों के अवसर पर उपस्थित सदस्य सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम के मानद सचिव विजय कुमार सिंह ने बताया कि रेड क्रॉस का अमल नेत्र शिविर हिमालया स्टील मिल सर्जिकल सहयोग से 30 अक्टूबर से 1 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।

चतड़ा चैथ सिंधारा
महोत्सवः भूले हुए
पारंपरिक मारवाड़ी
त्योहार को
पुनर्जीवित करने
का प्रयास



जमशेदपुर : मारवाड़ी सम्मेलन, काशीडीह समाज द्वारा श्री सत्यनारायण मारवाड़ी मंदिर (श्री सत्यम मंदिर), विरटपुर में आयोजित हचतड़ा चैथ सिंधारा महोत्सवबढ़ को बड़ी धूमधाम और पारंपरिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस महोत्सव का आयोजन विशेष रूप से 8 वर्ष से 25 वर्ष तक के युवाओं और नवविवाहित जोड़ों के लिए किया गया था। इसका मकसद था- नई पीढ़ी को संस्कृतिक एवं परंपरा से जोड़ना, सामुदायिक एकता और मेल-जोल को बढ़ावा देना तथा सिंधारा पर्व को उत्सव के रूप में मानकर सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखना। महोत्सव में पारंपरिक सांस्कृतिक रंगों से सजे अनेक आकर्षक कार्यक्रम जिनमें- गुडधानी, डंका, खेल-मनोरंजन गतिविधियाँ, पुष्पों को मेढ़ी लगाना, समीत एवं स्वादिष्ट जलपान विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। सभी खेलों और प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने बहु-चढ़कर हिस्सा लिया। विजेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षक पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष सुश्री चंद अग्रवाल सह पत्नी मीना अग्रवाल उपस्थित रहे। प्रांतीय अध्यक्ष ने गणेश चतुर्थी पर सिंधारा महोत्सव की पुरानी परंपरा को पुनः जीवित

अगस्त तक सोन मंडप (सिरगोड़ा टाउन हॉल परिसर) में किया जाएगा।
11 प्रखण्डों के 231 पंचायत में
अवस्थित कुल 399 ग्रामों में
जनजातीय समुदाय के समस्याओं की
वृत्तिरित सुमाई एवं निराकरण हेतु एक
आदि सेवा केंद्र का सिंगल विन्डो ऑफिस
सेवा गठन किया जाएगा जिसके अन्तर्
आंगवाड़ी केन्द्र, प्राथमिक/मिडिल
स्कूल, का कोई परिसर, प्रज्ञा केंद्र बनने
पंचायत बनने अथवा सामुदायिक
उपयोग से संबंधित कोई सरकारी बाधक
किसी एसएचओ समूह के नियमित
केंद्र हेतु निर्धारित स्थल अथवा किसी
सार्वजनिक चैपल को चिन्हित किया
जाए। प्रत्येक 399 ग्रामों में 10 या
10 से अधिक आदिशायों का भी सुची

तैयार किया जाना है, जो इन ग्रामों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय के ग्रामीणों की समस्याओं व संवेदनशील सुनवाई तथा निराकरण में सहयोग करने के साथ साथ ग्रामों के विकास के लिए रूपरेखा भी तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। चयन में प्रत्येक ग्राम से सूचीबद्ध किये जाने वाले 10 या उससे अधिक व्यक्तियों की सूची में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य सहाय्य, जनसहाय्य, कृषक मित्र, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका, एक्टिव एसायचजी ग्रुप की एक्टिव सदस्यों, स्थानीय प्रभुत्व एवं स्नातक स्तरों पर शिक्षित व्यक्तियों की शामिल किया जाना है।

क्रॉस लिमिटेड
सीआईएल: L29100IL1991PLC004465
पंजीकृत कार्यालय: एम4, फेज 6, आदित्यपुर, औद्योगिक क्षेत्र,
गन्धर्व, जमशेदपुर, झारखंड - 832108,
फोन: 7280026478, वेबसाइट: www.krosslimited.com
ईमेल आईडी: cs@krossindia.com

34वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिचय सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 तथा भारतीय प्रतिष्ठान और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सभी संबंधित सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/ सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/ सीआईआर/पी/ 2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021/सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/8 दिनांक 13 मई 2022, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023, सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी-बीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 एवं सेबी/एचओ/सीएफडी/बीओडी-2 पीसीआईआर/ 2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 और अगर लागू परिवर्तन (सेबी परिवर्तन) के अनुपालन में कंपनियों को 30 सितंबर 2025 तक या उससे पूर्व वीसी या ऑडीपीएम के माध्यम से एजीएम अधोद्यित करने की अनुमति दी है। एम्पराए, सेबी के उक्त परिवर्तनों और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और सेबी (एसीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2016 (सेबी एसीबद्धता) लागू तथा प्राधान्यों के अनुसार सभी सूचना में निम्नलिखित साधारण और विशेष कामकाज के निष्पादन के लिए कंपनी की **34वीं एजीएम मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को प्रातः 11:00 बजे (आईएसटी)** वीसी/ऑडीपीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिवर्तनों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक परिचय सहित एजीएम सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को पहले ही ईमेल कर दी गई हैं जिनके ईमेल पता डायरेक्ट्री/पांटीस्टैटमेंट के पास पंजीकृत था। वार्षिक रिपोर्ट सहित सभी सूचनाओं की ईडिंगिंग मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 को पूरा हो गई है। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 36(1)(बी) के अनुसार कंपनी उन शेयरधारकों को एक वर्ष की चेन रही है जिनके ईमेल आईडी कंपनी/आईटी/डीपी के पास पंजीकृत नहीं है जिसे कंपनी की वेबसाइट या डबल लिंक दिया गया है जहाँ से कंपनी की वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट एक्सेस की जा सकती है।

ई-वोटिंग सूचना- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ प्रत्येक कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कंपनी अपने सदस्यों को नेगरल सिफारिशों/डिक्लारेड लिमिटेड (एलसीएल) द्वारा प्राप्त और एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एजीएम सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए मिमोट ई-वोटिंग सूचना प्रदान करेगी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सूचना एजीएम के दिन बैठक के दौरान उन सदस्यों के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला। बोर्ड ने निम्नलिखित और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया के संभालने के लिए भी शीतल प्रसार रद्द, प्रैक्टिसिंग कंपनी सहित को संबंधित नियुक्त किया है। सदस्य निम्नलिखित नोट कर सकते हैं:-

क) एजीएम सूचना में उल्लिखित साधारण और विशेष कामकाज का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा किया जा सकता है।

ख) कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 16 सितंबर, 2025 को डीमेटेयरिजलाइंड प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्य ऐसे मिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से सूचना में उल्लिखित कामकाज पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

ग) कौन भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 16 सितंबर, 2025 को सूचना प्रदान करने और शेयर अधिग्रहित करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा शेयर धारण करता है वह अपना फोलिएयो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी प्राप्त करते हुए evoting@nsdl.com पर ईमेल भेजकर लॉगिन आईडी और पारवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप ई-वोटिंग के लिए एम्पराए/सेबी के साथ पड़ते हैं तो कौनकौन से तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पारवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

घ) रिमोट ई-वोटिंग अधिनियम, 20 सितंबर, 2025 को प्रातः 9:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक, 22 सितंबर, 2025 को सां. 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए एम्पराए/सेबी द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में मौजूद को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

च) उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ज) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और वीसी/ऑडीपीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने अतीव तक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है वह बैठक में अपने मौखिक/लिखित या प्रयोग कर सकते हैं।

झ) बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने वाले सदस्य भी वीसी/ऑडीपीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन वह बैठक में दोबारा मतदान करने के हक्कदार नहीं होंगे।

ञ) कौन भी व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिजिटरीजरी द्वारा नाम और पता/आईडी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज है केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग या बैठक में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के हक्कदार होंगे।

झ) रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम सूचना में दिए गए हैं।

ड) सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.krosslimited.com, एम्पराए/सेबी के पोर्टल www.evoting.nsdl.com के साथ बीएसई लिमिटेड और नेमनस्टैटमेंट एक्सेसिबल ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और ईमेल investors@krossindia.com पर कंपनी को लिखकर निवेदन के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

ट) ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में सदस्यगण www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड अनुपालन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अगर कष्टपूर्ण ज्ञान वाले प्रश्न ("फर्पक्वैरी") और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सूत्री पड़वी न्यूजे, वरिष्ठ प्रबंधक, एम्पराए/सेबी के पास evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं। सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में सूझे देवोलिना कामरकर, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी से फोन नं. 7280026478 पर या ई-मेल: investors@krossindia.com पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते क्रॉस लिमिटेड
हस्ता./...
देवोलिना कामरकर
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. एसीएस62733

तिथि: 26.08.2025
स्थान: जमशेदपुर